



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 09.09.2021

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से राजमार्ग को अवरुद्ध करने के संबंध में 06 नफ़र अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के ऑपरेशन दस्तक, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व यातायात व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में दूरभाष के जरिए प्राप्त लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी राजमार्ग के अवरुद्ध होने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र स्व० गिरधारी 2. अनूप कु० पुत्र प्रेम चन्द्र 3. गौतम पुत्र मोहन लाल 4. प्रेम चन्द्र पुत्र पन्ना लाल 5. रोशन पुत्र छेदी 6. दीपक कु० पुत्र लालजी निवासी गण- नई बस्ती पाण्डेयपुर को पाण्डेयपुर चौराहा के पास से दिनांक 08.09.2021 समय 18.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। उक्त के संबंध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पर मु०अ०स० 0326/2021 धारा 143, 186, 353, 341, 504, 188 भा०द०वि० व 8B राष्ट्रीय राजमार्ग अधि० 1956 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 08.09.21 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर पर जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एकत्र होकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए रस्सियों के सहारे मुख्य मार्ग हुकुलगंज रोड पर आकाश ज्वेलर्स के सामने पूरे रोड को अवरुद्ध कर आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध कर दोनों तरफ से आने- जाने वाले वाहनों को रोक दिए हैं तथा कुछ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी हैं जिसमें मरीज है। लगातार हार्न बजा रहें हैं लेकिन एकत्र भीड़ टस-से-मस नहीं हो रही है, बल्कि और उग्र होकर प्रशासन के विरुद्ध नारे लगा रही हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर जाम का नेतृत्व कर रहे अरविन्द व अनूप कुमार तथा उनके साथियों को काफी समझा बुझा कर अवरुद्ध सड़क को चालू कराने का प्रयास किया गया परन्तु किसी की बात को सुनने के लिए अरविन्द व उनके साथी तैयार नहीं हुए। इसी बीच उग्र भीड़ पुलिस टीम से बदतमीजी पर उतारू हो गई। हिंमत अमली का प्रयोग करते हुए भीड़ में से शक्ति के साथ अरविन्द S/O स्व० गिरधारी लाल, अनूप कु० S/O प्रेम चन्द्र, गौतम S/O मोहन लाल,

प्रेम चन्द्र S/O पन्ना लाल, रोशन S/O छेदी लाल, दीपक कु0 S/O लालजी निवासीगण नई बस्ती पाण्डेयपुर को जुर्म धारा 186,353,143,341,504,188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके से ममता व माधुरी निवासी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर तथा अन्य उनके सहयोगीगण जो रस्सियों के सहारे रास्ता अवरूद्ध किए थे, रस्सी लेकर अन्य लोगों को गिरफ्तार देखकर भाग निकले।

पूछताछ विवरण- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि नई बस्ती में रमेश बाबू की जमीन है, पुराना कुआ है, जिसको घेरना चाहते थे। हम लोगों ने मना किया क्योंकि वहाँ पर हमारे पूर्वजों द्वारा पूजा-पाठ किया जाता था, जब वह नहीं माने तब हम लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अरविन्द पुत्र स्व0 गिरधारी उम्र करीब 47 वर्ष
2. अनूप कु0 पुत्र प्रेम चन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष
3. गौतम पुत्र मोहन लाल उम्र करीब 20 वर्ष
4. प्रेम चन्द्र पुत्र पन्ना लाल उम्र करीब 65 वर्ष
5. रोशन पुत्र छेदी उम्र करीब 27 वर्ष
6. दीपक कु0 पुत्र लालजी उम्र करीब 21 वर्ष

निवासीगण- नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0 अमित कुमार राय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 2.हे0का0 दिनेश राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 3.हे0का0 रामसमुझ पासवान थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 4.का0 सुमन्त कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी
- 5.का0 चन्द्रशेखर भारती थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

विभागीय परिषदीयों के अधिकार क्षेत्रों के परिचय :-

वर्तमान धनराशि
 ₹ 10,00,000/-
 ₹ 6,00,000/-
 ₹ 2,00,000/-

वर्तमान धनराशि
 ₹ 9,000/-
 ₹ 25,000/-
 ₹ 36,000/-
 ₹ 75,000/-

वर्तमान धनराशि
 ₹ 15,000/-
 ₹ 25,000/-
 ₹ 30,000/-
 ₹ 60,000/-
 ₹ 1,00,000/-
 ₹ 20,000/-

सहायक
 ₹ 15,000/-

सहायक
 ₹ 25,000/-

सहायक
 ₹ 30,000/-

सहायक
 ₹ 60,000/-

सहायक
 ₹ 1,00,000/-

सहायक
 ₹ 20,000/-

दो गज़ की दूरी-मार्क है जरूरी



आवश्यक नम्बर

1. पुलिस अधीक्षक, बाराणसी 9454400492
2. अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय एवं अंचाल 9454400438
3. अपर पुलिस अधीक्षक, मन्सूर एवं बदायुँ 9454400458
4. पुलिस अधीक्षक, कानपुर जेन 9454400552
5. अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर जेन बाराणसी 9454400634
6. प्रमुख, च. तालुका
7. प्रमुख, राधेपुर

चौकी पहड़िया

